



### COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए ब्रैम्पटन ट्रांज़िट सेवा में 4 मई से होने वाले बदलाव

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (29 अप्रैल, 2020) – यह सुनिश्चित करने के लिए कि COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) एमरजेंसी के दौरान, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit), अपने समुदाय को सुरक्षित रूप से सेवा प्रदान कर रहा है, सोमवार, 4 मई से, अगले नोटिस तक, बस सेवा में इस प्रकार से बदलाव किए जाएंगे।

निम्नलिखित रूट्स पर अतिरिक्त सेवा दुबारा चालू की जाएगी और बसें हर थोड़े समय बाद आएंगी। इससे ब्रैम्पटन में लोगों को अस्पतालों जैसी स्वास्थ्य देखभाल फैसिलिटीज तक और कार्यस्थलों तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी। साथ ही, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट की अन्य सेवाओं तक पहुंच और कनेक्शंस में सुधार होगा। हमारे पास जितने भी ट्रांज़िट ऑपरेटर उपलब्ध हैं, उनके साथ इन बस सेवाओं को कायम रखने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

- **511/511A ज़ूम स्टील्स (511/511A Züm Steeles)** – कार्यदिवसों को सुबह (सुबह 6 बजे से 9 बजे तक) और शाम (दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक) वाले व्यस्त समय में, जो बसें पहले हर 20 मिनट बाद आती थीं, वे अब हर 10 मिनट बाद आएंगी
- **7/7A केनेडी (7/7A Kennedy)** – कार्यदिवसों को सुबह (सुबह 6 बजे से 9 बजे तक) और शाम (दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक) वाले व्यस्त समय में, बसें हर 10 मिनट बाद आएंगी
- **8 सेंटर (8 Centre)** – शनिवार वाली सेवा शामिल की गई है
- **14/14A टोरब्रैम (14/14A Torbram)** – कार्यदिवसों को सुबह (सुबह 6 बजे से 9 बजे तक) और शाम (दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक) वाले व्यस्त समय में, बसें हर 10 मिनट बाद आएंगी
- **18 डिक्सी (18 Dixie)** – कार्यदिवसों को सुबह (सुबह 6 बजे से 9 बजे तक) और शाम (दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक) वाले व्यस्त समय में, जो बसें पहले हर 15 मिनट बाद आती थीं, अब वे हर सात मिनट बाद आएंगी
- **20/20A ईस्ट इंडस्ट्रियल (20/20A East Industrial)** – सोमवार से शुक्रवार तक, 20A दुबारा चलाई जा रही है
- **29 विलीयम्स पार्कवे Parkway (29 Williams Parkway)** – सोमवार से शनिवार तक, दोपहर (सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक) वाली सेवा शामिल की गई है, रविवार वाली कोई सेवा नहीं
- **31 मैकवीन (31 McVean)** – सोमवार से शनिवार तक, दोपहर (सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक) वाली सेवा शामिल की गई है, रविवार वाली कोई सेवा नहीं
- **51 हैरफोर्ड (51 Hereford)** – सोमवार से शनिवार तक, दोपहर (सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक) वाली सेवा शामिल की गई है, रविवार वाली कोई सेवा नहीं
- **52 मैकमर्ची (52 McMurphy)** – शनिवार और रविवार वाली सेवा शामिल की गई है
- **60 मिसिसागा (60 Mississauga)** – सोमवार से शुक्रवार तक, दोपहर (सुबह 9 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक) वाली सेवा शामिल की गई है

COVID-19 की वजह से, सीनियर आई.डी. (Senior ID) और वेटर्न (Veteran) कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं। सवारियां अगले नोटिस कर, अपने एक्सपायर हुए कार्डों का उपयोग कर सकती हैं।

सवारियों को याद दिलाया जाता है कि टर्मिनल्स में ग्राहक सेवा (Customer Service) काउंटर बंद हैं। 4 मई से शुरू करते हुए, ब्रैमली (Bramalea), ब्रैम्पटन गेटवे (Brampton Gateway) और डाउनटाउन (Downtown) टर्मिनल्स में टर्मिनल की बिल्डिंग का समय बदलकर, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक हो जाएगा।

इस समय जिन रूट्स पर सेवा चालू है, उनकी और उनके शेड्यूल की सूची के लिए [www.bramptontransit.com](http://www.bramptontransit.com) पर जाएं।

### COVID-19 से सुरक्षा संबंधी उपाय

अधिक बार सफाई और सैनिटाइज़ करने का शेड्यूल पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा। हर 48 घंटों में सभी ठोस सतहों, ऑपरेटर कम्पार्टमेंट्स और सीटों को रोगाणु मुक्त करना, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का लक्ष्य है। इस समय अधिकतर बसों को हर 24 घंटों में सैनिटाइज़ किया जा रहा है। जिन फैसिलिटीज और टर्मिनल्स की ठोस सतहें हैं, उन्हें रोज़ाना पोंछा जा रहा है और सैनिटाइज़ किया जा रहा है। सवारियों को सलाह दी जाती है कि वे सफर करते समय हैंड सैनिटाइज़र या वाइप्स जैसे खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें और बार-बार अपने हाथ धोएं।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, जोखिमों का लगातार निरीक्षण करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। नियमित अपडेट्स के लिए [www.brampton.ca/covid19](http://www.brampton.ca/covid19) पर जाएं और सेवा अपडेट्स के लिए [bramptontransit.com](http://bramptontransit.com) पर जाएं अथवा Twitter पर @bramptontransit को फॉलो करें। सवाल सीधे ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के संपर्क केंद्र (Contact Centre) से 905.874.2999 पर पूछे जा सकते हैं।

-30-

#### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)